

# Tijaria Polypipes Limited



**Date: 12/08/2022**

To,  
The Manager,  
Department of Corporate Services  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai- 400001  
**Scrip Code: 533629**

Listing Compliances,  
National Stock Exchange of India Limited,  
Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex,  
Mumbai-400051  
**Company Symbol: TIJARIA**

Dear Sir,

**Sub: Newspaper Advertisement of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022**

Please find enclosed herewith the copy of Newspaper Advertisement published on 11<sup>th</sup> August, 2022 in Financial Express (English Edition) and Business Remedies (Hindi Edition) in respect of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2022.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours Truly,

**For Tijaria Polypipes Limited**

*Shipra Gandhi*  
A circular purple stamp with the text "TIJARIA POLYPIPES LIMITED" around the perimeter and "JAIPUR" in the center. The name "Shipra Gandhi" is written in blue ink across the stamp.  
Shipra Gandhi  
(Company Secretary & Compliance officer)

M.No. A68405

PIPING SOLUTIONS

**Correspondence Office:**

A-130 (H), Road No. 9-D, Vishwakarma Industrial Area  
Jaipur-302013 (Raj.) India  
Tel : 0141-2333722  
E-mail: info@tijaria-pipes.com

**Regd. Office / Works:**

SP-1-2316, RIICO Industrial Area  
Ramchandrapura, Sitapura Extn.  
Jaipur-302022 ( Raj.) India.  
CIN - L25209RJ2006PLC022828



**TRADEWELL HOLDINGS LIMITED**  
(Formerly BRAND REALTY SERVICES LIMITED)  
CIN: L74110DL1995PLC064237  
Regd. Off: S-8 & S-2, DDA SHOPPING COMPLEX, OPP. POCKET-I, MAYUR VIHAR-I, DELHI -110091  
Tel.: 011-22755819  
Email Id: info@brandrealty.in ; Website: https://www.brandrealty.in

**Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the First Quarter & Three Months Ended 30th June, 2022**  
(Rs. in Lacs except per share data)

Particulars	Quarter ended		Year Ended
	30.06.2022	31.03.2022	31.03.2022
	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
Total Income from Operations	6.62	48.17	549.08
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(20.75)	27.21	(10.49)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(20.75)	27.21	(10.49)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(20.75)	33.97	(3.73)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(20.75)	33.97	(3.73)
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	300.44	300.44	300.44
Reserves excluding Revaluation Reserves (As per previous acc. Year)	-	-	-
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
1. Basic:	(0.69)	1.13	(0.12)
2. Diluted:	(0.69)	1.13	(0.12)

**Notes:**  
1. The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial Results for the first quarter and three months ended 30th June, 2022 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results ended 30th June, 2022 is available on the BSE website (www.bseindia.com)and Company's website (https://www.brandrealty.in).  
2. The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 10th August, 2022.

For TRADEWELL HOLDINGS LIMITED  
Sd/-  
KAMAL MANCHANDA  
(WHOLETIME DIRECTOR)  
DIN: 00027889

Place: Delhi  
Date: 10.08.2022

**Indian Bank** Branch: Janakpuri A Block (A-3 / 2, Janakpuri, New Delhi - 110058)

**(Rule-8(1)) POSSESSION NOTICE (for immovable property)**  
Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of Indian Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 02.06.2022 calling upon the Borrower/Ms Umrah Jewellers (Prop: Mrs. Rajkeen Saifi w/o Mr. Mohd. Zahid, and Mr. Mohd Zahid S/o Mr. Fahimuddin (Guarantor) to repay the amount mentioned in the notice aggregating to Rs. 23,67,602/- (Rupees Twenty Three Lakhs Sixty Seven Thousand Six Hundred and Two Only) as on 02.06.2022 plus accrued interest/unrealized interest at the contractual rate(s) together with incidental expenses, costs, charges, etc. till the date of payment within 80 days from the date of the notice.  
The Borrower / Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower / Guarantor and the public in general that the undersigned being the Authorized Officer of Indian Bank has taken the Symbolic Possession of the property owned by Mrs. Rajkeen Saifi w/o Mr. Mohd. Zahid, and as described herein below in exercise of powers conferred upon him under sub-section (4) of Section 13 of the Act, read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this 8th day of August of the year 2022.  
The Borrower/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for an amount of Rs. 23,67,602/- (Rupees Twenty-Three Lakhs Sixty-Seven Thousand Six Hundred and Two Only) as on 02.06.2022 plus accrued interest/ unrealized interest at the contractual rate(s) together with incidental expenses, costs, charges, etc. till the date of final payment is made to the Bank.

**Description of the Immovable Property**  
1. Equitable Mortgage upon property situated at 1st Floor, P-187, Plot No 7, Khasra No-561, Bihari Colony, Shahdara, Delhi-110032. North: Property no P-186, East: Road 10ft wide., South: Property no P-188, West: Nala

Date: 08-08-2022, Place: New Delhi  
Authorized Officer, INDIAN BANK

**"IMPORTANT"**  
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, or for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**AAR SHYAM INDIA INVESTMENT COMPANY LIMITED**  
CIN: L67120DL1983PLC015266  
Regd. Office: B-42, Lower Ground Floor, Panchsheel Enclave, New Delhi - 110 017  
Tel: 011-45626909, Email: info@aarshyam.in

**STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 2022** (Rs. in lakhs)

Particulars	Quarter ended	Year to date figures/ previous year ending	Corresponding 3 months ended in the previous year
	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021
1. Total Income from Operations	(1.94)	24.15	17.82
2. Net Profit (+) / Loss (-) Ordinary Activities after tax (9-10)	(7.77)	4.96	11.93
3. Net Profit After the adjustment of comprehensive income	(42.16)	54.79	51.38
4. Paid-Up Equity share capital (Face Value Rs.10/-)	300.00	300.00	300.00
5. Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	116.76	116.76	61.88
6. Earning Per Share (EPS) (Rs. 10/- Each) (Not annualised) (Before & After extraordinary items)			
a. Basic	(0.26)	0.17	0.40
b. Diluted	(0.26)	0.17	0.40

**Notes:**  
1. The aforesaid result were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 10.08.2022.  
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Year Ended results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Yearly Results are available on the Stock Exchange websites. (URL of the filings).

Aar Shyam India Investment Company Limited  
Sd/-  
Sanyam Tuteja  
(Director)  
DIN: 08139915

Place: Delhi  
Date: 10.08.2022

**TIJARIA POLYPIPES LIMITED**  
REGD. OFF: SP-1-2316, RIICO INDUSTRIAL AREA, RAMCHANDRAPURA, SITAPURA EXTENSION, JAIPUR-302022,  
CIN: L25209RJ2006PLC022828  
TELE FAX: 0141-2333722 EMAIL: INVESTORS@TIJARIA-PIPES.COM  
EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2022  
(Rs. in lakhs except the Point No. 7)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended
		30.06.2022	31.03.2022	31.03.2022
	(Un-audited)	(Audited)	(Un-audited)	(Audited)
1 Total Income from operations and others	997.97	1367.25	1316.94	5510.41
2 Net Profit/(Loss) for the period (before Exceptional and Extraordinary Items and tax)	-436.30	(753.14)	(454.89)	(2171.69)
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	437.30	(753.14)	(455.01)	(2171.81)
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	437.30	(753.14)	(455.01)	(2171.81)
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	437.30	(750.79)	(455.01)	(2169.46)
6 Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66
7 Earnings Per share of Rs. 10/- each (not annualised)				
Basic	(1.53)	(2.62)	(1.59)	(7.58)
Diluted	(1.53)	(2.62)	(1.59)	(7.58)

**Notes:**  
1. The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 10th August, 2022. Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary. 3. Provisions for Income Tax, Deferred tax if any, shall be recognised at year end/quarter four. 4. Operating Segments: The Company primarily operates in two segments i.e. Pipes & Textiles. The products considered for each operating segments are: 1) Pipes includes HDPE, PVC pipe, irrigation system; 2) Textile includes Mink Blankets, Mask. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the stock exchanges i.e. www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.tijaria-pipes.com.

For and on behalf of the Board  
Sd/-  
Praveen Jain Tijaria  
(Whole-Time Director)  
(DIN: 00115002)

Place: Jaipur  
Date: 10th August, 2022

**Globe**  
**GLOBE INTERNATIONAL CARRIERS LIMITED**  
Regd. Office: 301 - 306, Prakash Deep Complex, Near Mayank Trade Centre, Station Road, Jaipur RJ 302006 IN  
CIN: L60232RJ2010PLC031380  
Web-site: www.gicl.co, e-mail: info@gicl.co  
Phone: 0141-2361794, 2368794, 4083700

**NOTICE TO MEMBERS**  
NOTICE is hereby given that The 1st Extra Ordinary General Meeting ("EGM") for the F.Y. 2022-23 of the members of the Company will be held on Thursday, 01st Day of September, 2022 at 02:00 P.M. (IST) through video conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set forth in the Notice of EGM dated 23rd July, 2022. Through Extra Ordinary General Meeting resolutions related to following matters will be passed:  
a) To increase the Authorized Share Capital of the Company;  
b) Alteration of the Memorandum of Association of the Company;  
c) Issue of Bonus Shares to the Equity Shareholders of the Company.  
Electronic copies of the Notice of the EGM have been sent to all the Members whose email id is registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice is also available on the website of the Company at www.gicl.co. The Dispatch of Notice has been completed on Monday, 08th Day of August, 2022. Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on cut-off date i.e. Wednesday, 24th August, 2022 may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the EGM through remote e-voting system of the National Securities Depository Limited (NSDL). The Detailed procedure/instructions for remote e-voting are contained in the Notice of the EGM. All the members are informed that:  
I. The Business as set forth in the Notice of the EGM shall be transacted through voting by electronic means only.  
II. The remote e-voting period shall commence on Monday, 29th Day of August, 2022 (09:00 A.M. IST);  
III. The remote e-voting period shall end on Wednesday, 31st Day of August, 2022 (5:00 P.M. IST);  
IV. The Cut-Off Date for determining the eligibility to vote by electronic means at the EGM is Wednesday, 24th August, 2022.  
V. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice of the EGM and holds shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 24th August, 2022 may obtain the login id and password by sending a request at info@gicl.co. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.  
VI. Members may note that (a) The Remote E-voting module will be disabled by NSDL, beyond 05:00 P.M. IST on Wednesday, 31st August, 2022 and once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again; and (c) Only persons whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting at the EGM.  
VII. The Notice of EGM is available on the Company's website www.gicl.co, on the website of stock exchange www.nseindia.com and also on the NSDL website www.evoting.nsl.com.  
VIII. In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nadi.com or contact Mr. Vinod Kumar Sami, Company Secretary & Compliance Officer, Globe International Carriers Limited, 301 - 306, Prakash Deep Complex, Near Mayank Trade Centre, Station Road Jaipur RJ 302006 IN, Contact: +91-9827229298, E-Mail: cs@gicl.co

By order of the board  
For Globe International Carriers Limited  
Sd/-  
Vinod Kumar Sami  
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Jaipur  
Date: 11/08/2022

**MEDICAMEN BIOTECH LTD.**  
Regd. Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019  
CIN : L74899DL1993PLC056594 E-mail : cs@medicamen.com, www.medicamen.com

**Extracts of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2022 (In Lakhs)**

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
1	Total income from operations (net)	3405.03	2309.14	2760.90	11716.53	3405.03	2309.14	2760.90	11716.53
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	432.50	322.84	474.57	1810.35	432.50	321.91	474.57	1809.42
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	432.50	322.84	474.57	1810.35	432.50	321.91	474.57	1809.42
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	358.56	275.47	415.13	1490.64	358.56	274.54	415.13	1489.71
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax))	358.56	275.47	415.13	1490.64	358.56	274.54	415.13	1489.71
6	Equity Share Capital	1221.66	1221.66	1221.66	1221.66	1221.66	1221.66	1221.66	1221.66
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)								
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation)								
	Basic:	2.94	2.25	3.40	12.20	2.94	2.25	3.40	12.19
	Diluted:	2.94	2.25	3.40	12.20	2.94	2.25	3.40	12.19

**Notes:**  
1. The Un-audited financial results for the quarter ended have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 10.08.2022.  
2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.  
3. The company operates only in one business segment, viz. Pharmaceuticals formulations, hence segment reporting is not applicable.  
4. The Earning Per Share has been calculated as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 33 - Earning per Share.  
5. The results are not comparable on quarterly or yearly basis as company is regularly incurring capex and filling dossiers with regulatory authorities which is visible from increased financial cost. The company has also recruited and placed senior human resources for the purpose of creating its own marketing network in francophone Africa. The company shall start reaping its benefits from next financial year.  
6. Limited review report has been carried out by the Statutory Auditors for the above period.  
7. The Figures for the quarter ended 31 March 2022 is the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and for the period upto the end of the third quarter of relevant financial year.  
8. The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary, to make them comparable.

For Medicamen Biotech Limited  
Sd/-  
Rahul Bishnoi  
Chairman

Place: New Delhi  
Date: 10.08.2022

**FORTUNE INTERNATIONAL LTD**  
CIN : L52324DL1981PLC012033  
Regd. Office: G-4, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110028  
E-Mail ID for investors: rekha.srivastava2016@gmail.com, Tel: 011-25774212-214

**Extract of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2022**  
(Figures in lakhs)

Particulars	Standalone Results				Consolidated Results			
	Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations (net)	-	50.03	43.39	208.08	-	50.03	43.39	208.08
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	-2.25	65.42	20.05	362.52	-2.25	65.42	20.05	182.77
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-2.25	65.42	20.05	362.52	-2.25	65.42	20.05	182.77
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-2.25	64.70	20.05	324.55	-2.25	64.70	20.05	144.80
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-2.25	64.70	20.05	324.55	174.16	202.29	265.32	652.38
Paid up Equity Share Capital	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-392.26	-	-	-	-1986.87
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)								
Basic:	-0.03	0.92	0.28	4.61	2.47	2.88	3.77	9.27
Diluted:	-0.03	0.92	0.28	4.61	2.47	2.88	3.77	9.27

**Notes:**  
Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website: http://www.bseindia.com and also on the Company's website: http://www.fortuneinternational.in.

For FORTUNE INTERNATIONAL LTD  
Sd/-  
(Ruchika Bharadwaj)  
Director  
(DIN: 00288459)

Place: New Delhi  
Date: 10.08.2022

**IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI BENCH NORTHEN ARC CAPITAL LIMITED V/S. FIVE CORE ELECTRONICS LIMITED**  
IN I.A. 3804/2022, R.A. 28/2022  
IN I.A 6045 of 2021  
IN C. P. No. 1671(ND) 2019

To,  
1. Mr. Amarjit Singh Kalra, Director  
C-130, Ground Floor, Mansarovar Garden, New Delhi-110015  
2. Mr. surinder Kaur Kalra, Director  
C-130, ground Floor, Mansarovar Garden, New Delhi-110015  
3. Mr. Jagjit Kaur Kalra, Director  
C-130, Ground Floor, Mansarovar Garden, New Delhi-110015

**WHEREAS**, Mr. Manoj Kulshrestha Resolution Professional has been appointed as Resolution professional as per order dated 02.06.2020 by Hon'ble NCLT, New Delhi and admitted CIRP as per IB Code, 2016 in aforesaid matter. The Hon'ble NCLT, New Delhi Bench issued notice on various time in main matter and in another Interlocutory application on all concerned parties including you the above- named. That vide last order dated 27.07.2022 of the Hon'ble NCLT has permitted the undersigned to serve you the Addressee through substituted service.  
**TAKE NOTICE** that the above captioned matter will now be listed on 14.09.2022 before the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench.  
The Hon'ble Bench has directed you to file your reply to the aforesaid applications. You are further directed to either appear in person or through your Authorised Representative on the next date of hearing i.e., 14.09.2022.  
**TAKE NOTICE** that in default of your appearance on the day aforesaid, the Application will be heard and determined in your absence.

**MANOJ KULSHRESTHA**  
Resolution Professional  
Five Core Electronics Limited (In CIRP)  
Date: 10/08/2022 | Place: Delhi

**JINDAL POLY INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED**  
CIN : L65923UP2012PLC051433  
Regd. Office : 19' K.M., Hapur Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Bulandshahr (U.P.) - 203408  
Head Office: Plot No. 12, Local Shopping Complex, Sector B-1, Vasant Kunj, New Delhi-110070  
Website: www.jpifcl.com; E-mail: cs\_jpifcl@jindalgroup.com; Phone No. 011-40322100

**Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2022**  
(Amount Rs. Lakhs Except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	
		30-Jun-22	31-Mar-22	30-Jun-22	31-Mar-22	31-Mar-22	
	Unaudited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	
I.	Total Income from Operations Including other Income	7.20	15.96	16.26	69,076.30	80,604.92	191,532.57
II.	Net Profit/(Loss) before Tax	(1,326.87)	3,052.49	5,953.15	15,894.04	23,462.25	136,376.10
III.	Net Profit/(Loss) after Tax	(1,326.87)	3,052.49	5,953.15	11,310.53	20,154.66	144,280.11
IV.	Total Comprehensive Income for the Period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(1,562.33)	4,287.54	8,430.27	11,081.44	21,408.31	146,779.88
V.	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10 per Share)	1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19
VI.	Other Equity including NCI	-	-	-	-	-	-
VII.	Earnings Per Share (Of Rs.10/- Each) (Not annualised except for the year ended 31st March, 2022)						
	a. Basic	(12.62)	29.04	56.63	74.93	138.35	756.66
	b. Diluted	(12.62)	29.04	56.63	74.93	138.35	756.66

See Accompanying Notes to the Financial Results

**Notes:** The above is an extract of the detailed format of results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The details in prescribed format of the results are available on the websites of the Stock Exchanges.

For and On behalf of the Board of Directors  
Jindal Poly Investment and Finance Company Limited  
Sd/-  
Suresh Chander Sharma  
Director  
DIN: 0006394

Place : New Delhi  
Date : 10.08.2022

**JITF INFRALOGISTICS LIMITED**  
CIN - L60231UP2008PLC069245  
Regd. Off.: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403

**EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022**  
(₹ Lacs)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	
	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from operations	70.24	68.82	72.76	276.71	25,008.43	40,452.59	20,583.44
2	Net Profit/ (Loss) for the period/year (before Tax and Exceptional items)	11.09	10.59	5.40	25.59	(3,743.25)	(2,692.66)	(3,482.36)
3	Net Profit/ (Loss) for the period/year before Tax (after Exceptional items)	11.09	10.59	5.40	25.59	(3,743.25)	(2,692.66)	(3,482.36)
4	Net Profit/ (Loss) for the period/year after Tax (after Exceptional items)	8.29	7.92	3.98	19.14	(3,599		



